

6	आई एस 17950 (भाग 4) : 2022/आई एस ओ 16014-4 : 2019 प्लास्टिक — परिमाण – अपवर्जन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके पॉलिमर के औसत आणविक भार और आणविक भार वितरण का निर्धारण भाग 4 उच्च तापमान विधि	11 नवम्बर 2022	लागू नहीं	लागू नहीं
7	आई एस 17950 (भाग 5) : 2022/आई एस ओ 16014-5 : 2019 प्लास्टिक — परिमाण – अपवर्जन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके पॉलिमर के औसत आणविक भार और आणविक भार वितरण का निर्धारण भाग 5 प्रकाश-प्रकीर्णन विधि	11 नवम्बर 2022	लागू नहीं	लागू नहीं

इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवान, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड कि या जा सकता है।

राजीव शर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-1)

[विज्ञापन-III/4/असा./419/2022-23]

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (444).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 17948 (Part 3) : 2022/ISO 16620-3 : 2015 Plastics — Biobased Content Part 3 Determination of Biobased Synthetic Polymer Content	11 Nov 2022	NA	NA

2	IS 17948 (Part 5) : 2022/ISO 16620-5 : 2017 Plastics — Biobased Content Part 5 Declaration of Biobased Carbon Content, Biobased Synthetic Polymer Content and Biobased Mass Content	11 Nov 2022	NA	NA
3	IS 17950 (Part 1) : 2022/ISO 16014-1 : 2019 Plastics — Determination of Average Molecular Weight and Molecular Weight Distribution of Polymers Using Size – Exclusion Chromatography Part 1 General Principles	11 Nov 2022	NA	NA
4	IS 17950 (Part 2) : 2022/ISO 16014-2 : 2019 Plastics — Determination of Average Molecular Weight and Molecular Weight Distribution of Polymers Using Size – Exclusion Chromatography Part 2 Universal Calibration Method	11 Nov 2022	NA	NA
5	IS 17950 (Part 3) : 2022/ISO 16014-3 : 2019 Plastics — Determination of Average Molecular Weight and Molecular Weight Distribution of Polymers Using Size – Exclusion Chromatography Part 3 Low — Temperature Method	11 Nov 2022	NA	NA
6	IS 17950 (Part 4) : 2022/ISO 16014-4 : 2019 Plastics — Determination of Average Molecular Weight and Molecular Weight Distribution of Polymers Using Size – Exclusion Chromatography Part 4 High — Temperature Method	11 Nov 2022	NA	NA
7	IS 17950 (Part 5) : 2022/ISO 16014-5 : 2019 Plastics — Determination of Average Molecular Weight and Molecular Weight Distribution of Polymers Using Size – Exclusion Chromatography Part 5 Light-Scattering Method	11 Nov 2022	NA	NA

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices : Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

RAJEEV SHARMA, Scientist F & DDG (Standardization–I)

[ADVT.-III/4/Exty./419/2022-23]